



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1946 (श10)

(सं० पटना 756) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2024

सं० 02/ई० परिवहन-07/2024, परि०/9596—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उपधारा-1 एवं परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न सड़कों, नगर निकाय अंतर्गत सड़कों पर वाहनों के तीव्र गति (Over speeding) के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को न्यून करने के उद्देश्य से वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने हेतु परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

2. वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने हेतु निम्न रूपेण एक कमिटी गठित की जाती है :-

- |        |  |   |            |
|--------|--|---|------------|
| (i)    | प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।                 | — | अध्यक्ष    |
| (ii)   | अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार, पटना।                  | — | उपाध्यक्ष  |
| (iii)  | राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।                            | — | सदस्य सचिव |
| (iv)   | संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।                     | — | सदस्य      |
| (v)    | मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                | — | सदस्य      |
| (vi)   | मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।             | — | सदस्य      |
| (vii)  | मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार, पटना।    | — | सदस्य      |
| (viii) | प्रबंधक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना।          | — | सदस्य      |
| (ix)   | क्षेत्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना।     | — | सदस्य      |
| (x)    | कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्। | — | सदस्य      |

3. सड़क सुरक्षा परिषद अथवा संबंधित निर्माण एजेंसी, जिला पदाधिकारी, आम जनता या अन्य स्रोतों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सम्यक जाँचोपरान्त इस समिति के विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया जायेगा कि उस क्षेत्र में कितनी गति सीमा रखी जाए।

4. परिवहन विभाग इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित कर दिशा-निर्देश निर्गत कर सकेगा।

5. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

*The 7<sup>th</sup> August 2024*

**No.- 02/e-Transport-07/2024, Trans 9596**—In accordance with the powers conferred by Proviso and Sub section-1 of the section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988, and considering the escalating number of vehicles, increased road usage, and consequent rise in road accidents and fatalities, the state government has taken measures to ensure road safety in order to reduce road accidents and deaths resulting from them. In view of this, the Transport Department will be the competent authority to determine the maximum speed limit of vehicles on various National Highways, State Highways, roads of Road Construction Department and Rural Works Department and other roads within the municipal limits.

2. To determine the maximum speed limit of vehicles, a committee is formed as follows :-

- |        |  |   |                  |
|--------|--|---|------------------|
| (i)    | Principal Secretary/Secretary, Transport Department, Bihar, Patna.             | - | Chairman         |
| (ii)   | Additional Director General of Police (Traffic), Bihar, Patna.                 | - | Vice Chairman    |
| (iii)  | State Transport Commissioner, Bihar, Patna.                                    | - | Member Secretary |
| (iv)   | Joint Secretary, Transport Department, Bihar, Patna.                           | - | Member           |
| (v)    | Chief Engineer, Road Construction Department, Bihar, Patna.                    | - | Member           |
| (vi)   | Chief Engineer, Rural Works Department, Bihar, Patna.                          | - | Member           |
| (vii)  | Chief General Manager, Bihar State Road Development Corporation, Bihar, Patna. | - | Member           |
| (viii) | Manager, Bihar State Bridge Construction Corporation, Bihar, Patna.            | - | Member           |
| (ix)   | Regional Officer, National Highway Authority, Patna.                           | - | Member           |
| (x)    | Executive Officer, Lead Agency, Bihar Road Safety Council.                     | - | Member           |

3. On receipt of proposal from Road Safety Council or related construction agency, District Officer, general public or other sources, after due investigation and deliberations of this committee, a decision will be taken as to what speed limit should be imposed in that area.

4. The Transport Department will determine the necessary procedure in this regard and issue guidelines.

5. This notification will be effective from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,  
Sanjay Kumar Agarwal,  
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 756-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>